

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ने COVID-19 एमरजेंसी के दौरान, फिजिशियन्स की संख्या बढ़ाने में सहयोग का अनुरोध किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (8 अप्रैल, 2020) – आज अपनी मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) एमरजेंसी के दौरान, अधिक से अधिक रोगियों का इलाज करने में मदद के लिए दिशा को मंजूरी दी। ऐसा, दूसरे देशों से यहां काम करने के लिए आए योग्य, इमिग्रेंट डॉक्टरों को मुख्य भूमिकाएं निभाने की अनुमति देकर संभव हो सकता है।

सिटी ऑफ काउंसिल ने, मेयर पैट्रिक ब्राउन और काउंसलर शारमैन विलियम्स द्वारा प्रांत को लिखे पत्रों का समर्थन किया। सिटी, पूरे ओनटैरियो की अन्य म्युनिसिपल्टीज और टाउनशिप्स के साथ इस प्रस्ताव को साझा करेगी और उन्हें अनुरोध करेगी कि वे भी ओनटैरियो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ (Ontario Minister of Health) और प्रीमियर ऑफ ओनटैरियो (Premier of Ontario) को पत्र भेजें।

काउंसिल ने ओनटैरियो सरकार द्वारा, इसके नए ऑनलाइन टूल के बारे में कल की गई घोषणा का स्वागत किया। इस ऑनलाइन टूल के साथ, मुख्य भूमिका निभाने योग्य कुशल मेडिकल वर्कर्स पाना आसान होगा। काउंसिल समझती है कि COVID-19 का मुकाबला करने में यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

24 मार्च को, सिटी काउंसिल की सलाह और सिटी की एमरजेंसी मैनेजमेंट टीम (Emergency Management Team) की सिफारिश के बाद, मेयर पैट्रिक ब्राउन ने, सिटी के एमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान (Emergency Management Plan) के मुताबिक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में एमरजेंसी की स्थिति (State of Emergency) घोषित की थी। तब से लेकर, सिटी लगातार, समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखने में मदद के लिए, तत्काल बेजोड़ कदम उठा रही है।

लिंक

- [24 मार्च, 2020 – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने COVID-19 की प्रतिक्रिया में एमरजेंसी की स्थिति घोषित की \(March 24, 2020 – City of Brampton declares State of Emergency in response to COVID-19\)](#)
- [7 अप्रैल, 2020 – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन द्वारा COVID-19 की प्रतिक्रिया के बारे में ताजा जानकारी \(April 7, 2020 – City of Brampton update on response to COVID-19\)](#)

हवाले

“पूरे प्रांत में और ब्रैम्पटन में, हजारों की संख्या में ऐसे इमिग्रेंट डॉक्टर व नर्स हैं, जो अन्य देशों से यहां काम करने के लिए आए हैं। वे सभी COVID-19 एमरजेंसी में, फ्रंटलाइन्स पर काम करने और सहयोग के लिए तैयार हैं व इसके इच्छुक हैं। चूंकि रोज़ाना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हमारे लिए इन प्रतिभावान डॉक्टरों और नर्सों को शामिल करना आवश्यक है – यह ज़िंदगियां बचाने का सवाल है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन ने इस हित में लीडरशिप संभाल ली है। अब हम ओनटैरियो के अन्य शहरों और टाउन्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए बुला रहे हैं। जो हेल्थकेयर पेशेवर इस महामारी का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं, वे प्रशंसा योग्य हैं लेकिन उन्हें भी मदद की जरूरत है। दूसरे देशों से यहां काम करने आए, योग्य इमिग्रेंट डॉक्टरों को सहायक के तौर पर नहीं, बल्कि मुख्य भूमिका निभाने की अनुमति देकर, मौजूदा हेल्थकेयर पेशेवरों की मदद करना जरूरी है।”

- शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca